

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 13/2017-सेवा कर

नई दिल्ली, , 2017

सा.का.नि. (अ).- केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 83 द्वारा सेवा कर को लागू की गई केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 31, धारा 32 और धारा 32क से धारा 32त तक के साथ पठित वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) धारा 94 की उपधारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा कर (मामलों का निपटान) नियम, 2012, का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेवा कर (मामलों का निपटान) संशोधन नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सेवा कर (मामलों का निपटान) नियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में:-

(i) नियम 2 के, खंड (ग) में, "प्ररूप एससी (एसटी)-1" शब्द, अक्षर, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, "या प्रपत्र एससी (एसटी)-1" शब्द, अक्षर, कोष्ठक और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) उक्त नियमों के नियम 3 में:-

(क) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1क) अधिनियम की धारा 83 द्वारा सेवा कर लागू की गई उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ड.) की उपधारा (5) के अधीन कोई आवेदन प्ररूप एससी (एसटी)-2 में किया जाएगा।";

(ख) उप-नियम (3) के, "प्ररूप एससी (एसटी)-1" शब्द, अक्षर, कोष्ठक और अंक के पश्चात्, "या प्ररूप एससी (एसटी)-2", यथास्थिति, शब्द, अक्षर, कोष्ठक और अंक अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) उक्त नियमों में, नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"4. मामलों के निपटान के लिए आवेदन में सूचना का प्रकटन – निपटान आयोग, उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32च की उपधारा (3) के अधीन, अधिनियम की धारा 83 के द्वारा सेवा कर को लागू की गई अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या अधिकारिता रखने वाले सेवा कर आयुक्त से रिपोर्ट की मांग करते समय, यथास्थिति, नियम 3 के उप-नियम (1) में या उप-नियम (1क) में निर्दिष्ट आवेदन की एक प्रति उपाबंध और विवरणियों तथा आवेदन के ऐसे उपाबंधों से संलग्न अन्य दस्तावेजों सहित अधिकारिता रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त या सेवा कर आयुक्त को, अग्रेषित करेगा।"

[फाइल सं. 275/36/2016-सीएक्स.8ए(पीटी.)।]

()

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 403(अ), तारीख 29 मई, 2012, अधिसूचना संख्यांक 16/2012-सेवा कर, तारीख 29 मई, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

फार्म सं. एससी (एस सी)-2

[सेवा कर (मामलों का निपटान) नियमावली, 2012 के नियम-3 के उपनियम(1 क) के अन्तर्गत]

सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग के समक्ष

स्थित बेंच

वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 83 द्वारा सेवा कर के लिए लागू किया गया उत्पाद शुल्क अधिनियम की उपधारा (5) के अन्तर्गत किसी व्यक्ति के केस के समाधान के लिए आवेदन फार्म

1.	व्यक्ति का पूरा नाम	
2.	(i) व्यक्ति का डाक पता (ii) व्यक्ति का ई-मेल पता, यदि कोई हो	
3.	(i) संप्रेषण के लिए पता (ii) दूरभाष संख्या	
4.	(i) स्थायी खाता संख्या (ii) सेवा कर पंजीकरण संख्या (यदि कोई है) (iii) स्थिति (नोट - 2 देखें)	
5.	(i) व्यक्ति पर क्षेत्राधिकार वाले सेवा कर आयुक्त (ii) व्यक्ति पर क्षेत्राधिकार वाले सेवा कर आयुक्त का डाक पता	
6.	आवेदक को जारी किये गये कारण बताओ नोटिस के ब्यौरे (क) कारण बताओ नोटिस संख्या तथा तारीख (ख) नोटिस में विवाद की अवधि (ग) नोटिस में आवेदक से मांगा गया सेवा कर (रूप में) (घ) कारण बताओ नोटिस में नोटिस दिने वाले का नाम जिससे शुल्क की मांग की गई है। (ङ.) क्या उस आवेदक का केस जिससे शुल्क की मांग की गई है , को आयोग द्वारा निपटान किया गया है अथवा आवेदक का आवेदन आयोग के समक्ष लंबित रहा है। यदि हां , तो कृपया निपटान के लिए उस आवेदन की स्थिति तथा ब्यौरे प्रदान करें। (च) न्याय निर्णयन प्राधिकारी जिसके समक्ष किसी व्यक्ति का नोटिस न्याय निर्णयन के लिए लंबित रहा है।	
7.	मामले के संक्षिप्त तथ्य तथा निपटान किये जाने वाले मामलों के ब्यौरे	

व्यक्ति का हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं..... सुपुत्र/सुपुत्री निवासी..... सत्यनिष्ठा से घोषित करता हूँ कि मैं क्षमता में यह आवेदन कर रहा हूँ तथा मैं इसे सत्यापित करने में सक्षम हूँ।

यह कि इस आवेदन की विषय वस्तु सही है तथा यह कि समझौता आयोग के समक्ष अधिनियम की धारा 83 द्वारा सेवाकर पर लागू किए गए उत्पादशुल्क अधिनियम के अध्याय V के उपबंधों के निपटान हेतु मैंने कोई आवेदन दायर नहीं किया है तथा यह भी कि इस मामले के तथ्यों के संगत कोई भी सूचना छुपाई नहीं गई है। आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों के अनुबंध मूल की असली प्रतियां हैं तथा वित्तीय संव्यवहार दर्शाने वाली तालिकाएं सही हैं तथा मेरे द्वारा विधिवत प्रमाणित हैं।

यह कि जिस मामले के संबंध में समाधान की मांग की गई है, उसके संबंध में कोई कार्यवाही आयुक्त (अपील), सीमाशुल्क, उत्पादशुल्क एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण अथवा न्यायालयों, जैसा भी मामला हो, के समक्ष लंबित नहीं है अथवा उक्त अपीलीय प्राधिकारियों/न्यायालयों द्वारा न्याय निर्णयन प्राधिकारी को वापिस नहीं भेजी गई हैं।

आज (स्थान लिखें) में (माह एवं वर्ष लिखें) के दिन सत्यापित।

अभिसाक्षी

टिप्पण :

1. आवेदन की फीस प्राधिकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय रिजर्व बैंक की किसी शाखा में जमा कराई जानी चाहिए तथा चालान की तृतीय प्रति आवेदन के साथ समझौता आयोग को भेजी जाएं समझौता आयोग चेक, ड्राफ्ट, हुंडियां अथवा अन्य परक्राम्य लिखत स्वीकार नहीं करेगा।
2. कृपया बताएं क्या व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, कंपनी, फर्म, व्यष्टियों का संघ आदि है।

अनुबंध

अधिनियम की धारा 83 द्वारा सेवाकर पर लागू की गई उत्पादशुल्क अधिनियम की धारा 32 (इ) की उपधारा (5) के अंतर्गत किए गए आवेदन के मद 7 में संदर्भित ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण।

1. आवेदक द्वारा मांगे गए समझौता निबंधन सहित निपटाए जाने वाले मामलों से संबंधित तथ्यों का संपूर्ण एवं असली प्रकटन।

हस्ताक्षर

स्थान :

तिथि :